

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (कक्षा 5 वीं), जुलाई 2022

बैठक क्र.

संच



0 3 0 2

पेपर क्र. - II

वेळ : 01:30 ते 03:00

माध्यम : हिन्दी



एकूण गुण : 150

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी

पृष्ठ : 32

प्रश्नपत्र हल करने से पहले कृपया नीचे दिये गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

- (1) इस प्रश्नपत्र के दो भाग हैं। जिसमें से भाग - I में तृतीय भाषा विषय से संबंधित 1 से 25 और भाग II में बुद्धिमत्ता चाचणी विषय से संबंधित 26 से 75 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी 75 प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- (2) प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए है।
- (3) प्रश्नपत्र हल करने के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
- (4) उत्तर देने के लिए स्वतंत्र उत्तरपत्रिका दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने चार विकल्प के लिए क्रमानुसार दीर्घवृत्त दिए गए हैं। जिनमें से सही उत्तर - विकल्प के दीर्घवृत्त को नीचे दिए गए उदाहरणानुसार भरें।
उदा. प्रश्न क्र. 6 का सही उत्तर विकल्प क्र. 2 है, तो आगे दिए अनुसार उत्तर भरें।
प्रश्न क्र. 6 ① ② ③ ④
- (5) नीचे दिये गए उदाहरण के अनुसार अंकित किए गए उत्तर स्वीकार्य नहीं किए जायेंगे। इस प्रकार अंकित किए गए प्रश्न के उत्तर को 'शून्य' अंक दिए जायेंगे। ① ② ③ ④
- (6) प्रत्येक प्रश्न के लिए एक से अधिक दीर्घवृत्त में उत्तर अंकित किये गए, चिन्हांकित किये गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- (7) एक बार अंकित किए गए उत्तर दोबारा बदले नहीं जा सकते।
- (8) विकल्प के उत्तर अंकित करने के लिए केवल काले और नीले रंग के बॉलपेन का ही इस्तेमाल करें। पेन्सिल से अंकित उत्तर स्वीकार्य नहीं किए जायेंगे।
- (9) प्रश्नपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे और अंतिम पृष्ठ पर कच्चे काम (Rough work) के लिए खाली जगह है, वहीं कच्चा काम (Rough work) करें।
- (10) परीक्षा की अवधि मर्यादित होने के कारण यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता हो तो आगे के प्रश्न हल करें। अंत में समय बचने पर रह गए प्रश्नों के लिए पुनः प्रयास करें।
- (11) किसी प्रश्न में त्रुटि/गलती परिलक्षित होने पर पर्यवेक्षक या परीक्षा केंद्र संचालक से विचार विमर्श ना करें।
- (12) प्रश्न में त्रुटि/गलती/इसके संबंध में निवेदन विद्यालय अथवा अभिभावकों द्वारा समूह शिक्षणाधिकारी या शिक्षणअधिकारी के पास लिखित रूप में न भेजकर संबंधित विद्यालय के लॉगिन से ऑनलाइन पद्धति से ही भेजें।
- (13) त्रुटि/गलती/इसके संबंध में निवेदन ऑनलाइन पद्धति से भेजने की अवधि परीक्षा परिषद के निर्देश स्थान से अंतरिम (अस्थायी) उत्तर सूची के प्रेषित होने से लेकर 10 (दस) दिन तक रहेगी।
- (14) टंकण दोष या अन्य कारण से प्रश्न गलत परिलक्षित होने पर विशेषज्ञ समिति के निर्णयानुसार योग्य कार्यवाही की जायेगी।
- (15) मूल माध्यम के साथ अंग्रेजी भाषा में भी प्रश्नपत्र दिया गया है। मूल माध्यम के संदिग्ध प्रश्नों के लिए अंग्रेजी प्रश्न देखें।

SECTION - I

ENGLISH

Instructions for Q.01 to Q.03

Read the passage carefully and answer the following questions.

Mani is my favourite cat. Every morning mother gives her some milk. Sometimes she catches a mouse near the garbage pit. She likes climbing trees and watching the birds.

01. What does Mani catch?

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) A pit | (2) A mouse |
| (3) Milk | (4) A bird |

02. Find the odd term.

- | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| (A) Morning | (B) Climbing | (C) Watching |
| (1) 'B' correct | (2) 'C' correct | |
| (3) 'A' correct | (4) 'A', 'B', 'C' correct | |

03. Find the rhyming word for 'Free'.

- | | |
|----------|----------|
| (1) She | (2) Give |
| (3) Like | (4) Tree |

04. Fill in the blank with the correct alternative.

Malhar caught a big golden fish _____ his net.


- | | |
|----------|----------|
| (1) in | (2) on |
| (3) over | (4) upon |


SPACE FOR ROUGH WORK





05. Choose the correct comparison for as timid as _____.
- (1) rabbit (2) elephant
(3) deer (4) vulture

06. Look at the picture and select the correct conversation from the given options.

- (1) A : Excuse me, uncle. Is this yours?
B : Oh, yes!
- (2) A : Thank you so much for this gift.
B : You are welcome.
- (3) A : What's the time?
B : It's two O'clock.
- (4) A : Can you please help me.
B : Sure.



07. Ladder :  :: English : ?



08. Find the smaller hidden word which indicates 'Head of the unit' from the word - Handkerchief.

- (1) Chick (2) Chief
(3) Hand (4) And


SPACE FOR ROUGH WORK

09. Complete the word register.

Violin, Tabla, _____ , _____.

- (1) Eraser, Sponge (2) Scene, Museum
(3) Tambourine, Cymbals (4) Mixer, Sieve

10. Identify the game and select the correct option.



- (1) Hop-sotch
(2) Hide and seek
(3) Marbles
(4) Skipping-rope

11. Choose the correctly spelt word.

- (1) Compitition
(2) Competition
(3) Compitision
(4) Competision

12. Identify the underlined punctuation mark in the given sentence.

Ah! At last I will have some rice.

- (1) Apostrophe
(2) Comma
(3) Question mark
(4) Exclamation mark

SPACE FOR ROUGH WORK

13. Select the proper option to complete the motto.

_____ is wealth.

- (1) Money
- (2) Health
- (3) Currency
- (4) Growth

14. Fill in the blank with correct option.

This advertisement gives offer for _____ festival.



- (1) Eid
- (2) Pune
- (3) Diwali
- (4) Christmas

15. Select the correct alternative.

_____ work quickly.

- (1) Lets'
- (2) let's
- (3) Let's
- (4) 'Lets

16. Find the odd man out.


- (1) Shiny star
- (2) Tall tree
- (3) Clever house
- (4) Old man

17. Which of the following is a request? Choose the correct option.

- (1) May I come in?
- (2) I don't know.
- (3) What are you doing?
- (4) Please wait for me.

SPACE FOR ROUGH WORK

18. Look at the chart and find the correct option.




- (1) Beak (2) Tusk
(3) Stomach (4) Wrist

19. Select the correct option.

February is the _____ month of the year.

- (1) second (2) 2
(3) II (4) two

20. This clock shows the time _____.



- (1) quarter to four
(2) quarter past four
(3) quarter to three
(4) quarter past three

21. What will you write in the following timeline?

Present	Past	Future
↓	↓	↓
Find	?	Will find

- (1) Will find (2) Found
(3) Finds (4) Was finding

SPACE FOR ROUGH WORK

22. At the time of examination, what will you say to your friend? Choose the proper greeting.
- (1) All the best. (2) All in one.
(3) All is set. (4) All sit down.
23. Select the correct option.
Sunday comes after _____.
- (1) Monday (2) Thursday
(3) Saturday (4) Tuesday
24. Choose the correct alternative for the given sentence.
gaurav was the captain of 'a' division's team.
- (1) Capital 'G' for gaurav
(2) Capital 'A' for 'a' division
(3) Capital 'C' for captain
(4) Capital 'G' for gaurav and capital 'A' for 'a' division.
25. Count the number of question marks in the following conversation.
- A : Hello, Ira speaking. Will you come to play with me?
B : Which game?
A : Off course! Basketball.
B : When?
A : At 5 p.m.
- (1) 2 (2) 4
(3) 0 (4) 3

SPACE FOR ROUGH WORK

विभाग - II

बुद्धिमत्ता चाचणी

26. 'शिवनेरी गड़ का आरोहण करते समय थकेहुए राजूको रामने आधार दिया।' इस वाक्य में चार अक्षरी शब्दों की अपेक्षा दो अक्षरी शब्द कितने अधिक अथवा कम हैं?

- (1) 1 से अधिक (2) 1 से कम (3) 2 से अधिक (4) 2 से कम

27. ख प ग ग प ख ग घ ट प ड ख ग प ट ड प
इस अक्षरमाला में कौनसे अक्षर समान बार आये है?

- (1) प ग (2) ख ट (3) ट ड (4) ड प

28. नीचे दी गई संख्यामालिका में '5' के पहले '3' है, लेकिन '5' के बाद '4' नहीं, ऐसे कितने बार हुआ है?

8 3 5 2 4 5 3 5 3 4 6 5 4 3 5 3 5 6 4 3 5 3 5 4 3 5 7


- (1) 7 बार (2) 8 बार (3) 6 बार (4) 9 बार

प्रश्न क्र. 29 से 33 के लिए सूचना -


समुह में न आनेवाला पद पहचानकर उसके पर्याय क्रमांक के वृत्त को रंग दो।

29. (1) आँख - नयन (2) सूर्य - भास्कर (3) हस्त - पाणि (4) गरीब - दिन


30.




(1)



(2)



(3)




(4)


रफ कार्य हेतु स्थान

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


31.




(1)



(2)



(3)



(4)

32.

(1) 4

(2) 17

(3) 7

(4) 12

33.

(1) 111

(2) 482

(3) 231

(4) 362

Q.34 and Q.35 Direction:

Consider the pattern in the given number series and select the correct option to replace the question mark.

34.

53, 61, 68, 82, ?, 103

(1) 92

(2) 91

(3) 89

(4) 95

35.

2, 4, 7, 12, 19, 30, ?, 60

(1) 47

(2) 43

(3) 49

(4) 45

36.

In the given series of symbols select the correct group from the options to replace the question mark.

$< + \times -$, $+ \times - <$, $\times - < +$, $- < + \times$, ?

(1) $< \times + -$

(2) $\times - < +$





(3) $< + \times -$

(4) $> + \times -$

37.


Select the correct figure from the options to replace the question mark.

Question Figures :




?


Answer Figures :




(1)



(2)



(3)



(4)


SPACE FOR ROUGH WORK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31.



(1)



(2)



(3)



(4)

32.

(1) 4

(2) 17

(3) 7

(4) 12

33.

(1) 111

(2) 482

(3) 231

(4) 362

प्रश्न क्र. 34 तथा 35 के लिए सूचना -

शृंखला की संख्याओं की रचना का सूत्र ध्यान में लेकर प्रश्नचिन्ह के स्थान पर आनेवाली संख्या पर्याय में से चुनिए।

34.

53, 61, 68, 82, ?, 103

(1) 92

(2) 91

(3) 89

(4) 95

35.

2, 4, 7, 12, 19, 30, ?, 60

(1) 47

(2) 43

(3) 49

(4) 45

36.

निम्नलिखित चिन्हों की मालिका में प्रश्नचिन्ह के स्थान पर आनेवाला समूह पर्याय में से चुनिए।

$< + \times -$, $+ \times - <$, $\times - < +$, $- < + \times$, ?

(1) $< \times + -$

(2) $\times - < +$





(3) $< + \times -$

(4) $> + \times -$

37.


प्रश्नचिन्ह के स्थान पर क्रम में आनेवाली आकृति कौन-सी है?

प्रश्नाकृति




?


उत्तर आकृति




(1)



(2)



(3)



(4)

रफ कार्य हेतु स्थान


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

38. Select the wrong term in the given number series.

$$\frac{1}{3}, \frac{3}{6}, \frac{5}{11}, \frac{7}{17}, \frac{9}{27}, \frac{11}{38}$$





- (1) $\frac{3}{6}$ (2) $\frac{11}{38}$ (3) $\frac{7}{17}$ (4) $\frac{9}{27}$

39. In the adjacent figure how many triangles are there?



- (1) 8
(2) 10
(3) 11
(4) 5

40. In the following question various faces of a cube are shown. Study them and find the number which is on the face opposite to 5.



- (1) 2 (2) 6 (3) 1 (4) 4

41. If Horse is called Camel, Camel is called as Zebra, Zebra is called as Donkey, then which animal is called as 'Ship of Desert'.

- (1) Horse (2) Camel (3) Donkey (4) Zebra

42. Ajay is taller than Ramesh but shorter than Sadu. Sameedha is taller than Ajay but not as tall as Sadu. Who is the tallest?

- (1) Sadu (2) Sameedha (3) Ajay (4) Ramesh

SPACE FOR ROUGH WORK


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

38. निम्नलिखित संख्यामालिका का गलत पद पहचानिए।

$$\frac{1}{3}, \frac{3}{6}, \frac{5}{11}, \frac{7}{17}, \frac{9}{27}, \frac{11}{38}$$


- (1) $\frac{3}{6}$ (2) $\frac{11}{38}$ (3) $\frac{7}{17}$ (4) $\frac{9}{27}$

39. संलग्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हैं?



- (1) 8
(2) 10
(3) 11
(4) 5

40. नीचे दिए गए प्रश्न में एक घनाभ के पृष्ठ अलग अलग स्थिति में किस प्रकार से दिखायी देंगे यह दर्शाया है। इन आकृतियों का निरीक्षण करके '5' अंक होनेवाले पृष्ठ के विरुद्ध पृष्ठपर कौन-सा अंक होगा ये पर्याय में से चुनिए।



- (1) 2 (2) 6 (3) 1 (4) 4

41. घोड़ेको उँट कहा, उँट को झेब्रा कहा, झेब्रा को गधा कहा, तो रेगिस्तानका जहाज किसे कहोगे?

- (1) घोड़ा (2) उँट (3) गधा (4) झेब्रा

42. अजय रमेश की अपेक्षा ऊँचा है लेकिन सदू की तुलना में बौना है। समिधा अजय से ऊँची है लेकिन सदूके इतनी ऊँची नहीं है, तो सबसे ऊँचा कौन है?

- (1) सदू (2) समिधा (3) अजय (4) रमेश

रफ कार्य हेतु स्थान

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


43. Five years ago John and Ahmed's age was $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$ times respectively of Sharad's age at that time. If John's age was 8 yrs at that time then what is the addition of ages of all three, two years later?
- (1) 38 yrs (2) 53 yrs (3) 59 yrs (4) 40 yrs

44. There are two married sons and three grand children in Radha's family. Find minimum number of members in Radha's family.
- (1) 12 (2) 11 (3) 10 (4) 9

Q.45 to Q.49 Direction :

In the given questions first term has a specific relation with the second term. The same relation exists between third and fourth term. Identify the relation and select the correct option to replace the question mark.

45. Maharashtra : Governor :: India : ?
- (1) Prime Minister (2) President
(3) Chief Minister (4) Vice-President

46. 
- (1) (2) (3) (4)

SPACE FOR ROUGH WORK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

43. जॉन और अहमद की पाँच वर्ष पूर्व की आयु शरद के उस समय के आयु से क्रमशः $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ गुना होकर जॉनकी उस समय की आयु 8 वर्ष हो तो तीनों की 2 वर्ष के बाद के आयु का योगफल कितने वर्ष होगा?

- (1) 38 वर्ष (2) 53 वर्ष (3) 59 वर्ष (4) 40 वर्ष

44. सौ. राधाकाकू के घर में दो विवाहित (शादीशुदा) लड़के और तीन पोते हैं। तो उनके घर में कमसे कम कितने लोग होंगे?

- (1) 12 (2) 11 (3) 10 (4) 9



प्रश्न क्र. 45 से 49 के लिए सूचना -

निम्नलिखित प्रश्नों में पहले व दूसरे पद में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे व चौथे पद में है। वह संबंध ढूँढकर प्रश्नचिन्ह के स्थान पर आनेवाले उत्तर का पर्याय क्रमांक के वृत्त को रंग दो।

45. महाराष्ट्र : राज्यपाल :: भारत : ?

- (1) प्रधानमंत्री (2) राष्ट्रपती (3) मुख्यमंत्री (4) उपराष्ट्रपती

46.



(1)

(2)

(3)

(4)

रफ कार्य हेतु स्थान

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


51. Rahul says, "There are 6 boys standing in front of me in a row and Amit is at the third position behind me." Amit says, "I am standing next to the boy who is exactly at the middle place in the row." How many boys are standing in the row?

- (1) 18 (2) 19 (3) 21 (4) 23

52. In a certain year if Independence day occurs on Tuesday then in the same year which day would be the last day of the year?


- (1) Sunday (2) Monday (3) Tuesday (4) Wednesday

53. The adjacent figure shows the number of players playing different games. Observe the figure and find how many players play at least two games?



- (1) 34
(2) 39
(3) 21
(4) 47

54. Select the correct option to describe the given venn diagram.



- (1) Male, Female, Doctors
(2) Numbers, Even numbers, Odd numbers
(3) Trees, Mango, Jackfruit
(4) Country, State, District

SPACE FOR ROUGH WORK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


51. राहुल कहता है, “एक कतार में मेरे आगे 6 लड़के खड़े हैं और मेरे पिछे तीसरे स्थान पर अमित खड़ा है।” अमित कहता है, “मैं बीच के लड़के के आगे तुरंत खड़ा हूँ।” तो उस कतार में कितने विद्यार्थी होंगे?

- (1) 18 (2) 19 (3) 21 (4) 23

52. एक वर्ष स्वातंत्र्यदिन मंगलवार को आया तो उस वर्ष का आखरी वार कौन-सा होगा?


- (1) इतवार (2) सोमवार (3) मंगलवार (4) बुधवार

53. संगत आकृतिमें खिलाड़ियों की संख्या दर्शायी हैं। इसमें कमसे कम दो खेल खेलनेवाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी हैं?



- (1) 34
(2) 39
(3) 21
(4) 47

54. निम्नलिखित वेन आकृति का अचूक वर्णन करनेवाला पर्याय कौन-सा है?



- (1) पुरुष, स्त्रि, डॉक्टर
(2) संख्या, समसंख्या, विषमसंख्या
(3) वृक्ष, आम, फणस
(4) देश, राज्य, जिल्हा

रफ कार्य हेतु स्थान

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

55. In the given square pattern, select the correct option to replace the question mark.

11	67	17
41	?	47
23	31	5

- (1) 73
(2) 61
(3) 59
(4) 53

Q.56 to Q.60 Direction :

A set of terms is given at the beginning of the question. These terms have some common characteristic. Find out the term from the alternatives that matches the given set of terms.

56. Step mother, Snow white, Spring time, ?

- (1) Distrust (2) Foot print
(3) Black white (4) Day night

57. Hard, Challenging, Testing, ?

- (1) Easy (2) Joyful
(3) Effortless (4) Difficult

58. 25, 123, 62, 6, ?

- (1) 341 (2) 216
(3) 511 (4) 218

59. 297, 135, 501, 189, ?

- (1) 503 (2) 355
(3) 243 (4) 781

SPACE FOR ROUGH WORK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

55. निम्नलिखित चतुर्भुज में प्रश्नचिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी?

11	67	17
41	?	47
23	31	5

- (1) 73
(2) 61
(3) 59
(4) 53

प्रश्न क्र. 56 से 60 के लिए सूचना -

प्रश्न के शुरु में कुछ पद दिए गए हैं। उनका एक समान विशेषता के अनुसार एक समूह तैयार होता है। इस समूह से संगत शब्द पर्याय में से चुनिए।

56. बड़बड़े, लग्नकार्य, शेतीबाडी, ?

- (1) पुर्नभरण
(2) बेलभांडार
(3) कामचोर
(4) यदि - तो

57. शत्रु, दुश्मन, वैरी, ?

- (1) वपू
(2) द्वेष
(3) संगर
(4) रिपू

58. 25, 123, 62, 6, ?


- (1) 341
(2) 216
(3) 511
(4) 218

59. 297, 135, 501, 189, ?


- (1) 503
(2) 355
(3) 243
(4) 781

रफ कार्य हेतू स्थान

60. Question Figures:




Answer Figures:




Q.61 and Q.62 Direction:

Select the mirror image of the given question figure from the options.

61. Question Figure:






Answer Figures:




SPACE FOR ROUGH WORK

60. प्रश्नाकृति




?


उत्तर आकृति




(1)



(2)



(3)




(4)

प्रश्न क्र. 61 तथा 62 के लिए सूचना -


निम्नलिखित प्रश्नआकृतियों की उदर्पण की प्रतिमा कैसी होगी यह पर्यायी आकृतियों से निश्चित करके वृत्त को रंग दो।

61. प्रश्नाकृति


उत्तर आकृति




(1)



(2)




(3)




(4)

रफ कार्य हेतु स्थान


62. Question Figure:




Answer Figures:




(1)



(2)



(3)




(4)


Q.63 and Q.64 Direction:

Select the water image of the given question figure from the options.


63. Question Figure:




Answer Figures:




(1)



(2)



(3)




(4)

64. Question Figure:



Answer Figures:



(1)



(2)



(3)





(4)


SPACE FOR ROUGH WORK

62. प्रश्नाकृति


उत्तर आकृति




(1)



(2)



(3)





(4)

प्रश्न क्र. 63 तथा 64 के लिए सूचना -


निम्नलिखित प्रश्नआकृतियों का पानी में दिखायी देनेवाला प्रतिबिम्ब कैसे होगा यह पर्यायी आकृतियों द्वारा निश्चित करो और वृत्त को रंग दो।

63. प्रश्नाकृति


उत्तर आकृति




(1)



(2)



(3)



(4)

64. प्रश्नाकृति

उत्तर आकृति



(1)



(2)




(3)



(4)

रफ कार्य हेतु स्थान

65. निम्नलिखित वृत्त आकृति में प्रश्नचिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी यह पर्याय में से निश्चित करो।



- (1) 25 (2) 6 (3) 7 (4) 17

प्रश्न क्र. 66 तथा 67 के लिए सूचना -

शब्द	BUT	TAP	BAT
सांकेतिक रूप	△ ● □	▼ △ ☆	△ ☆ ●

उपरोक्त सारणी के शब्दों के अक्षरों और चिन्हों का क्रम समान ही होगा ऐसा नहीं है, ये ध्यान में लेकर प्रश्न क्र. 66 व 67 के उत्तर पर्याय में से चुनिए।

66. 'U' इस अक्षर के लिए कौन-सा चिन्ह आएगा?

- (1) △ (2) ●
(3) □ (4) ☆

67. उपर दी गई सांकेतिक भाषा में 'TOP' ये शब्द किस प्रकार लिखोगे?

- (1) △ ● ▼ (2) ▼ ● □
(3) ☆ △ ▼ (4) △ □ ▼






रफ कार्य हेतु स्थान

Q.68 and Q.69 Direction:

Select the identical figure to the question figure from the options.

68. Question Figure:

Answer Figures:



(1)



(2)

(3)

(4)

69. Question Figure:

Answer Figures:



(1)

(2)

(3)

(4)

70. In a certain code language. If CAT = WYE, MEN = MUL and DOG = VKS then how will you write the word which is opposite gender of 'OX'?

- (1) KB (2) WOC (3) WKC (4) RBK

71.

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY

In the given alphabet series which letter is at the sixth position on the right hand of the letter which is at fourth place to the left of the letter which is ninth from the right hand side of the series?

- (1) R (2) S (3) G (4) T



SPACE FOR ROUGH WORK

प्रश्न क्र. 68 तथा 69 के लिए सूचना -


निम्नलिखित प्रश्नआकृतियों से हूबहू मिलनेवाली आकृति पर्यायी उत्तर आकृतियों में से चुनिए।

68. प्रश्नाकृति


उत्तर आकृति




(1)



(2)




(3)




(4)

69. प्रश्नाकृति


उत्तर आकृति



(1)



(2)



(3)



(4)

70. एक सांकेतिक भाषा में CAT = WYE, MEN = MUL और DOG = VKS इस प्रकार लिखते हैं। तो उसी भाषा में 'OX' का विरुद्धालिङ्गी शब्द कैसे लिखोगे?

(1) KB

(2) WOC

(3) WKC

(4) RBK

71.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

उपर की अक्षरमाला की दायी ओर से नौवें अक्षर के बायी ओर के चौथे अक्षर के दायी ओर से छठा अक्षर कौन-सा होगा?

(1) R

(2) S

(3) G

(4) T

रफ कार्य हेतु स्थान

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

72.

Letters	C	M	D	K	L	W	N	R	P
Numbers	7	8	5	4	2	9	6	0	3

Observe the given table and solve.

$$D + W \div P - (N + L) = ?$$

- (1) R (2) P (3) L (4) N

73. Purva is facing the south-east direction and she turns to her left two times at right angle and does Shirshasan. (up side down, with head down and legs up) which direction is pointed by her right hand?

- (1) South-west (2) North-east (3) South-east (4) North-west

74. You see an injured sparrow on your way to school. What will be your immediate action?

- (1) I will loudly call my friends.
(2) I will neglect the baby sparrow.
(3) I will inform the Head-master of my school about the incident.
(4) I will serve water from my water bottle and shift the sparrow to a safe place.

75. Whose action from the following is the most correct action?

- (1) Raju collected all the garbage from the varanda and burnt it.
(2) Sameer threw the wet garbage in the dustbin.
(3) Sameedha collected all the garbage from her house in a bag.
(4) Suresh converted wet garbage into manure.

SPACE FOR ROUGH WORK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

72.

अक्षरे	C	M	D	K	L	W	N	R	P
अंक	7	8	5	4	2	9	6	0	3

उपर की सारणी का निरीक्षण करनेपर -

$$D + W \div P - (N + L) = \text{कितना?}$$

- (1) R (2) P (3) L (4) N

73. आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) दिशा की ओर मुँह करके खड़ी हुई पूर्वा दो बार बायी ओर समकोण में मुड़ी और उसने शीर्षासन किया तो उसका दाया हाथ कौन-सी दिशा में होगा?

- (1) नैर्ऋत्य (दक्षिणी-पश्चिम) (2) ईशान्य (उत्तरी-पूर्व)
(3) आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) (4) वायव्य (उत्तरी-पश्चिम)

74. आपकी पाठशाला के जाने के रास्ते पर चिड़ियाका बच्चा तड़पाता हुआ दिखायी दिया तो आप तुरंत क्या करोगे?

- (1) चिल्लापूकार करके दोस्तों को बुलाऊँगी/बुलाऊँगा।
(2) चिड़िया के बच्चे की ओर ध्यान नहीं दूँगी/दूँगा।
(3) उपरोक्त घटना मुख्याध्यापक को बताऊँगी/बताऊँगा।
(4) खुदकी बोतल का पानी चिड़िया के बच्चे को पिलाकर उसको सुरक्षित स्थानपर रखूँगी/रखूँगा।

75. निम्नलिखित में से किसकी कृती सर्वाधिक योग्य साबित होगी?

- (1) राजूने आँगन का कचरा एकत्रित करके जलाया।
(2) समीरने गीला कचरा कचराकुंडी में डाला।
(3) समिधाने घर का कचरा एक ही डिब्बे में एकत्रित किया।
(4) सुरेश ने गीले कचरे से खाद तैयार किया।

रफ कार्य हेतु स्थान

SPACE FOR ROUGH WORK